



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 66 राँची, मंगलवार, 10 माघ, 1939 (श०)

30 जनवरी, 2018 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
आदेश

28 नवम्बर, 2017

संख्या-5/आरोप-1-177/2017 का.-11676-- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, हजारीबाग के पत्रांक-353/भ०नि०, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 द्वारा भ०नि० हजारीबाग थाना कांड सं०-48/17, दिनांक 13 नवम्बर, 2017, धारा-13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री मनोज कुमार तिवारी, झा०प्र०से०, चतुर्थ 'सीमित' बैच, अंचल अधिकारी, बरकट्टा, हजारीबाग को 5,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए धावा दल द्वारा दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है ।

2. अतः श्री तिवारी झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 14 नवम्बर, 2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित समझे जायेंगे ।

3. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद ये कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का कार्यालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में योगदान देंगे ।

4. निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**ओम प्रकाश साह,**  
सरकार के उप सचिव ।

-----